



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1936 (श०)
(सं० पटना 718) पटना, बुधवार, 3 सितम्बर 2014

सं० सौ०क०नि०/21/11/2014—945

गृह विभाग

सैनिक कल्याण निदेशालय

संकल्प

29 अगस्त 2014

विषय:—केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हो तथा वैसे कर्मी जो अन्य राज्यों के निवासी हों और बिहार राज्य में पदस्थापित हो और मुठभेड़/नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त करते हैं एवं उन्हें कीर्ति चक्र या उससे उच्चतर शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो उनके निकटतम आश्रित को 5,00,000/—रु० (पांच लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हो तथा वैसे कर्मी जो अन्य राज्यों के निवासी हो और बिहार राज्य में पदस्थापित हों और मुठभेड़/नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त करते हैं एवं उन्हें कीर्ति चक्र या उससे उच्चतर शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो उनके निकटतम आश्रित को 5,00,000/— (पांच लाख) रुपये मात्र अनुग्रह अनुदान वित्तीय वर्ष 2012-13 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त राशि का विकलन "मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यालय उप शीर्ष-0002 स्थल, जल एवं वायु सैनिकों का पर्वद-मुख्यालय प्रभार मॉग संख्या 22 विपत्र कोड-एन 2052000920002

एवं ईकाई शीर्ष 31 06—सहायक अनुदान—वेतनादि के अलावा” के अन्तर्गत होगा। उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग नं०-VII, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाये।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 718-571+200-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>